

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2012— फाल्गुन 12, शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं